



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2882]

नई दिल्ली शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/श्रावण 05, 1940

No. 2882]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 05, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

का.आ. 3666(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II -- खण्ड 3 -- उपखण्ड (ii) दिनांक 16 मई, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1314 (अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2015, जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल 5 एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) यथा अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए अपने आशय का दो मास का समय दिया गया था और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त प्राचीन स्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां 16 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

अतः केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 4 की उपधारा (3) (1958 की 24) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल खसरा नंबर	क्षेत्र	स्वामित्व	सीमाएं तथा खसरा संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
उत्तर प्रदेश	आगरा	सदर	मौजा बसी मुस्तकिल (ताजगंज)	आगा खां की हवेली	खसरा नंबर: 55, 56, 57 और 58	1.199 हेक्टेयर	खसरा नंबर 55, 57 और 58- उत्तर प्रदेश सरकार खसरा नंबर 56- वन विभाग	उत्तर: यमुना नदी दक्षिण: खसरा नंबर 49, 50, 51, 52, 53 और 54 पूर्व: खसरा नंबर 59, 63 और 64 पश्चिम: खसरा नंबर 49

[फा. सं. 2-8/2014-स्मा.]

उषा शर्मा, महानिदेशक



MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2018

S.O. 3666(E).—Whereas, by the notification of the Central Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 1314 (E) dated the 23rd April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated 16th May, 2015, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule annexed to the notification to be of National importance and a copy of the said notification was affixed at a conspicuous place near the said ancient monument as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 16th May, 2015;

Whereas, no objection has been received from the public for making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares that the said ancient monument specified in the Schedule and Site Plan annexed hereto, to be of National importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the Monument	Revenue plot Numbers to be included under protection	Area	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Uttar Pradesh	Agra	Sadar	Mauza Basai Mustkil (Taj Ganj)	Haveli of Agah Khan	Khasra Number: 55, 56, 57 and 58	1.199 Hectare	Khasra Number 55, 57 and 58—Government of Uttar Pradesh Khasra Number 56—Forest Department	North: Yamuna River South: Khasra Number 49, 50, 51, 52, 53 and 54 East: Khasra Number 59, 63 and 64 West: Khasra Number 49

[F. No. 2-8/2014-M]

USHA SHARMA, Director General

